


শিশুদেরে জন্ম বাইবলে
উপহার

यीशु के जरिये आंधर के चंगई



লিখিছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: Janie Forest
Alastair Paterson

অভিযোজিত: Ruth Klassen

অনুবাদিত: Sonu Rahi


দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children
www.M1914.org

©2025 Bible for Children, Inc.


লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে,
যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।




बरतिमाई यरीहो के सड़क के किनारे बैठल एगो आंधर
अदमी हलक। उ भीख मागते हलक। जखनी दयालु लोगबन
उधर से जा हलन त ओकरा एगो सिक्का चाहे कुच्छो खाय
लागी दे हलन। बरतिमाई काम न कर सकऽ हलन, काहेकी उ
आंधर हलक। उ खाली भीखे मांग सकऽ हलक।



एक दिन राजमार्ग पर भीड़ हलक। बरतिमाई ढेर मानी गोड़
के चले के आवाज सुनलक। कुछ तो जरूर बात हल। जल्दिये
आंधर आदमी जान गेलक कि हूँआ का होबित हलक।
नासरत के यीशु शहर में हलन। भीड़ के भीड़ यीशु के देखे
आउर उनखा सुने लागी जामा हो गेलन।



बरतिमाई काहे चिल्लाईलक? "यीशु दाऊद के संतान, हमरा पर दया करऽ!" उ काहे सोंचलक कि यीशु ओकर मदत कर




सकऽ हथन? सायद उ सुनलक हल, कि कइसे यीशु दूसरा के चंगा करलन हल। हूँआ पर कुच्छ आंधर, कुच्छ अपंग, कुच्छ गोंगा, आउर कुच्छ बहिरा हलक, जइसन ओहू हलक। "दाऊद की संतान, हमरा पर दया करऽ बरतिमाई फिन कस के चिल्लाईलक।" ओकर अवाज एगो आसा के साथ गुंजित हल।






बरतिमाई के एगो बात
के विस्वास हलका जदी
ओकर अबही मदत न
मिलतई, त ओकरा
आउर मोका कहियो न
मिल सकऽ हे। सायद
यीशु फिनो उ रस्ता से
कहियो न आ सकऽ
हलन।





बरतिमाई के यीशु भीर
पहुँचे ला हलका बाकि
लोगबन हट न रहल
हल। "अस्स्सस!"
ओंखनी कहलन आउर
उ ओकरा शांत रहे के
चेतौनी तक देलन।








बाकि बरतिमाई अब चुप न हलन। उ
और कस के चिल्लाय लगलन। अचानक
यीशु रुक गेलन! सुनलन! आउर आंधर
आदमी के अपना भीर लाबे लागी
कहलन! लोगबन बरतिमाई के कहलन,
"खुश रहऽ" उठऽ उ
तोर बोलौले हथुन।



अपन वस्त्र के एक तरफ फेंक के, बरतिमाई
उठलक आउर यीशु भीर अईलक।



यीशु पुछलन, "हमरा से तूं का चाहऽ हऽ कि हम तोरा लागी करूं?" तोहर जबाब का हैं? का तूं ढेर मानी पैसा चाहे बढिया कपड़ा मांगतऽ बरतिमाई का चाहऽ हलक?




न, आंधर बरतिमाई सोना या बढिया कपडा
यीशु से न मंगलक। तूं अपने जानऽ ह
कि उ का मांगे
ला चाहित होत।



प्रभु हमरा हमर "अपन रोशनी दऽ" बरतिमाई देखल
चाहित हलक। उ पेड़बन आउर चिरैयन आउर परमेश्वर के
बनाबल सभे सुंदरता के देखे ला चाहित हलक। उ एही
लागी देखे लागी चाहित हलक, कि उ खुद के देखभाल कर
सकई आउर भिखारी न रहई।



तऽ यीशु बरतिमाई से कहलन, "अपन रोशनी ले लऽ, तोहर विश्वास तोरा चंगा कैलक हे।"



तुरंते उ अपन रोशनी प्राप्त
कैलक, उ कहते रहलक कि
"परमेश्वर अद्भुत
हथन!" उ हमरा
चंगा कैलन हे
ई बरतिमाई
लागी एगो
अद्भुत घड़ी
हलक।



सभे लोगवन, जखनी एकरा
देखलन, परमेश्वर के स्तुति
कैलन। एक बार फिन से, उ
परमेश्वर के बेटा के अद्भुत
शक्ति के देखलन हल। यीशु
एगो गरीब आंधर भिखारी
के रोशनी देलन हल।



यीशु के जरिये आंधर के चंगाई

ঐশ্বররে বাক্য, বাইবলে থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

मरकुस 10, लूका 18 युहन्ना 9

“তোমার শব্দে প্রবেশেদ্বার আলো দেয়।”

গীতসংহিতা 119:130





দ্য এন্ড

50

60



এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদের বস্মিয়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে
যনি আমাদের তরৈকিরছেন এবং যনি চান আপনিতাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খারাপ কাজ করছোঁ, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপরে
শাস্তি মৃত্যু, কনিতু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসনে তিনি তাঁর একমাত্র
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্ম শাস্তি পতে
পাঠয়িছেন। তারপর যীশু আবার জীবতি হয়ে স্বর্গে চলে গলেনে! আপনি যদি
যীশুতে বশ্বিবাস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্ষমা চান, তিনি তা
করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেন।

যদি আপনি বশ্বিবাস করনে যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রয়ি যীশু, আমি বশ্বিবাস করয়ি আপনিতঈশ্বর, এবং আমার পাপরে জন্ম
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলনে, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়েছেন।
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে
আপনার জন্ম বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতদিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন! জন 3:16

